

● पढ़ो और गाओ :

११. वीरों को प्रणाम



देश की मिट्टी का कण-कण है,
जिन्हें प्राण से प्यारा ।

प्रणाम ऐसे वीरों को,
सौ-सौ बार हमारा ॥

यह ऐसी धरती है जहाँ पर,
गंगा-जमना बहती ।

देश पर मर मिटने की,
हरदम धुन-सी रहती ॥

वीरों के बलिदान से,

चमका हिंद वतन का तारा ।


नमस्कार ऐसे वीरों को,

सौ-सौ बार हमारा ॥



यह आजादी नहीं मिली है,
हमें किसी से भीख में ।
सीखा हम लोगों ने कुछ तो,
प्राणार्पण की सीख में ॥
देश की मिट्टी का कण-कण है,
जिन्हें प्राण से प्यारा ।

प्रणाम ऐसे वीरों को,
सौ-सौ बार हमारा ॥



— रमेश दीक्षित



पंक्तियों को क्रम से लगाओ और पढ़ो :

१. प्राणार्पण की सीख में ॥

२. जिन्हें प्राण से प्यारा ।

३. सीखा हम लोगों ने कुछ तो,

४. देश की मिट्टी का कण-कण है,

- उचित हाव-भाव से कविता का सस्वर वाचन करें और करवाएँ । उचित लय-ताल में समूह, गुट, एकल पाठ करवाएँ । उनसे छोटे-छोटे प्रश्न पूछें । स्वतंत्रता सेनानियों के नाम कहलवाएँ । देशभक्ति की अन्य कविताएँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें ।